



Regd. Offi. / Works

VILL. BHAINSA, 22-Km. STONE, MEERUT-MAWANA ROAD,
P.O. SANDHAN, MAWANA - 250401, U.P. (INDIA)
Ph. 01233-271137, 271515, 274324, Mob.: 8126131100, 9837790014
e-mail : accounts@sangalpapers.com, sangalpapers@gmail.com
sales@sangalpapers.com, website : www.sangalpapers.com

CIN : L21015UP1980PLC005138

PAN NO : AACCS4253J

GSTIN : 09AACCS4253J2Z5

To
The Secretary,
Bombay Stock Exchange Limited,
P. J. Tower, Dalal Street Fort,
Mumbai - 400001.

Respected Sir/Madam,

**Sub.: COPY OF ADVERTISEMENT PUBLISHED IN NEWSPAPER - FINANCIALS FOR THE
QUARTER & YEAR ENDED on 31st MARCH 2025 :**

This is inform you that pursuant to provisions of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015, please find enclosed copy of the Financials published for the quarter and year ended 31st March, 2025 on Friday, 31st May, 2025 in "Financial Express", English news paper and "Jansatta", Hindi news papers.

Kindly take on your records,

Thanking you,

For Sangal Papers Limited

Anant Vats

Digitally signed by

Anant Vats

Date: 2025.05.31

15:21:42 +05'30'


Anant Vats

Company Secretary

M. No. FCS-5575

Place: Mawana

Dated:31/05/2025



PUNJAB & SIND BANK
 (A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)

[RULE 8 (1)] POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE/MOVABLE PROPERTY)

Whereas, the Undersigned being the "Authorized Officer" of **Punjab & Sind Bank**, Under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued a demand notice(s) on the dates mentioned against account calling upon the respective **Borrower(s)/ Guarantor(s)** to repay the amount as mentioned against account within 60 days from the date of notice / date of receipt of the said notice.

The **Borrowers'/Guarantor's** having failed to repay the amount, notice hereby given to the **Borrowers'/ Guarantor's** and the public in general that the undersigned has taken possession of the Property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of said Act read with Rule 8 of the said rule

The **Borrowers'/Guarantor's** in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the Property and any dealing with the Property will be subject to the charge of the Punjab & Sind Bank, for the amounts, other charges, costs and interest thereon against calling account.

The **Borrowers'/Guarantor's** attention is invited to provisions of Sub Section (8) of the Section 13 of Act, in respect of time available to them, to redeem the secured assets.

Name of Branch Borrower(s) and Guarantor(s)	Description of the Immovable Properties	Date of Demand Notice	Date of Possession	Amount Outstanding
		Possession Type	Possession Type	
MULLANPUR DAKHA Borrower's: 1)Mr Surinder Kumar S/o Bhagwan Dass, 2)Smt Vanu Sharma W/o Surinder Kumar, Guarantor: Mr Inderjit Uppal S/o Mahinder Uppal	Equitable mortgage of Property/house, measuring 129 Sq. Yards, comprised in Kharsa No 45, Khatta No 251/298, as per Jamabandi for the year 2003-04, situated within revenue estate of Daba, Hadbust No. 262, Abadi known as New Amar Nagar, Tehsil & District Ludhiana, regd vide sale deed bearing wasika no 4189 dt 02/07/2012, as per following dimensions:- East: Road/Rasta 24'-0", West: Street/Rasta 20'-0", North: Neighbour 52'-6", South: Neighbour 63'-0"	01.11.2024	30.05.2025	Rs. 8,11,894.66
MULLANPUR DAKHA Borrowers: Mr Gurpreet Singh S/o Joginder Singh, Guarantor- Mr Joginder Singh S/o Kartar Singh	Equitable mortgage of Property/house bearing MC No B. 21-7457/3B, measuring 60 sqyds, comprised in Kharsa No 47, Khatta No 64/84/7, as per jamabandi for the year 2003-04, situated within revenue estate of Daba (Daba Colony street no 10), hadbust no 262, Tehsil & District Ludhiana regd vide sale deed bearing wasika no 6894 dt 30/08/2012, Ludhiana as per following dimensions:- East: Saroj Rani 30'-0", West: Pritam Singh 30'-0", North: Neighbour 18'-0", South: St 16' wide 18'-0"	12.09.2024	30.05.2025	Rs. 3,87,420/- (Rs. Three lacs eighty seven thousand four hundred twenty only) as on 12.09.2024 plus interest and incidental expenses incurred by bank w.e.f.01.10.2024.

DATE : 30-05-2025 PLACE : LU DHIANA AUTHORISED OFFICER

INTEC CAPITAL LTD.
 Regd. Office: 708 Manjusha 57 Nehru Place New Delhi - 110019

REDEMPTION NOTICE

Notice Under Section 13 (8) of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 ("SARFAESI Act, 2002) read with Rule 9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules").

INTEC/TF/C/2025/01 20/05/2025

- M/S The Fitness Club (Borrower)**
Registered office at/Residing at: House No. S-569, Greater Kailash-II, New Delhi-110 048.
- Rahul Narang (Guarantor/Mortgagor)**
Registered office at/Residing at: A-37, Link Road Lajpat Nagar-II New Delhi-110 024.
- Shelfali Narang (Guarantor)**
Registered Office at/ Residing at: A-37, Link Road Lajpat Nagar-II New Delhi-110 024.
- Rajender Kumar Narang (Guarantor/Mortgagor)**
Registered office at/ Residing at: A-37, Link Road, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110024.
- Rachna Narang (Guarantor/Mortgagor)**
Registered office at/Residing at: A-37, Link Road, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110024.
- M/s Olympia Fitness Pvt. Ltd. (Corporate Guarantor)**
Registered office at/ Residing at: House No. S-569, Greater Kailash-II, New Delhi-110048.

Re: M/S The Fitness Club

We, refer to various facilities, extended to and availed of by M/S The Fitness Club ("Borrower/Guarantor"), from time to time, interalia, from Intec Capital Limited Bank/FI. The Borrower has also executed various loan and security documents in favour of Intec Capital Limited undertaking to repay the financial assistance granted to the Borrower on the terms and conditions stated therein. To secure the said facilities, the Borrower and Mortgagors mortgaged and hypothecated various securities.

Despite repeated requests, the Borrower defaulted in repayment of the loan amount and notice under Section 13 (2) of the SARFAESI Act, 2002 was issued by Intec Capital Limited on 28.11.2019 calling upon the Borrower and you the Addressees to repay the outstanding dues as mentioned therein.

This is to inform you that as all the requisitions under the provisions of SARFAESI Act, 2002 and the Rules made thereunder have been complied with.

In view thereof, your attention is invited to the provisions of sub-section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, 2002 read with Rule 9(1) of the Rules made thereunder, in respect of time available, to redeem the mortgaged/ secured assets. Please note, Intec Capital Limited shall proceed to sell the mortgaged assets at any time after expiry of 30 days from the date of this notice.

Yours faithfully,

Authorised Officer

INTEC CAPITAL LTD.
 Regd. Office: 708 Manjusha 57 Nehru Place New Delhi - 110019

REDEMPTION NOTICE

Notice Under Section 13 (8) of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 ("SARFAESI Act, 2002) read with Rule 9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules").

INTEC/AES/2025/01 20/05/2025

- M/S Allied Engineering Solutions Through its proprietor Mr. Sanjiv Jain (Borrower)**
Registered office at/Residing at: Plot No.721-KH, Ward No.0172, Jalandhar, Punjab Industrial Area, Behind HLM College, Near Pasandia Steel, Meerut Road, Ghaziabad-201206. Also at: Rio-3/21, Raj Nagar, Ghaziabad-201002. Also at: Rio-3/18, Raj Nagar, Ghaziabad-201002.
- Sanjiv Jain (Guarantor/Proprietor/Mortgagor)** Registered Office at/ Residing at: R-3/18, Raj Nagar, Ghaziabad-201002. Also at: Rio-3/21, Raj Nagar, Ghaziabad-201002. Also at: KD-53, Kavi Nagar, Ghaziabad, U.P.-201002. Also at: Plot No.721-KH, Ward No.0172, Jalandhar, Punjab Industrial Area, Behind HLM College, Near Pasandia Steel, Meerut Road, Ghaziabad-201006.
- Shanno Jain (Guarantor)** Registered Office at/Residing at: R-3/18, Raj Nagar, Ghaziabad-201002. Also at: Rio-3/21, Raj Nagar, Ghaziabad-201002. Also at: KD-53, Kavi Nagar, Ghaziabad, U.P.-201002.
- Bihari Lal Jain (Guarantor)** Registered Office at/Residing at: R-3/18, Raj Nagar, Ghaziabad-201002. Also at: Rio-3/21, Raj Nagar, Ghaziabad-201002.
- Allied Industries through its proprietor Ms. Shanno Jain (Guarantor)** Registered Office at/ Residing at: 3/5, Meerut Road Ghaziabad, U.P.-201003.

Re: M/S Allied Engineering Solutions

We, refer to various facilities, extended to and availed of by M/S Allied Engineering Solutions ("Borrower/Guarantor"), from time to time, interalia, from Intec Capital Limited Bank/FI. The Borrower has also executed various loan and security documents in favour of Intec Capital Limited undertaking to repay the financial assistance granted to the Borrower on the terms and conditions stated therein. To secure the said facilities, the Borrower and Mortgagors mortgaged and hypothecated various securities.

Despite repeated requests, the Borrower defaulted in repayment of the loan amount and notice under Section 13 (2) of the SARFAESI Act, 2002 was issued by Intec Capital Limited on 12.06.2023 calling upon the Borrower and you the Addressees to repay the outstanding dues as mentioned therein.

This is to inform you that as all the requisitions under the provisions of SARFAESI Act, 2002 and the Rules made thereunder have been complied with.

In view thereof, your attention is invited to the provisions of sub-section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, 2002 read with Rule 9(1) of the Rules made thereunder, in respect of time available, to redeem the mortgaged/ secured assets. Please note, Intec Capital Limited shall proceed to sell the mortgaged assets at any time after expiry of 30 days from the date of this notice.

Yours faithfully,

Authorised Officer

Form No. URC-2

Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI of the Act. [Pursuant to section 374(b) of the companies Act, 2013 and rule 4(1) of the companies (Authorised to Register) Rules, 2014]

1. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made after fifteen days hereof but before the expiry of thirty days hereinafter to the Registrar at Registrar of Companies, Delhi that **RELIABLE SOURCE AND SOLUTIONS INDIA LLP** may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a company limited by shares.

2. The principal objects of the company are as follows: To carry on the business of Trading & manufacturers, producers, importers, exporters of electrical products and other domestic appliances, their assemblies, kits, spares and accessories. As well as doing consultants and advisers (in India and overseas) to individuals, firms, companies, local social or other organizations on technical, industrial, legal, taxation costing, accounting.

3. A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at the office at 435/6C Karuna Nagar, Mawal Road Faridabad, HR-121002.

4. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot no. 6/7, Sector 5, IIT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code 122050 within twenty one days from the date of publication of this notice, with a copy to the company at its registered office.

Dated this 31st day of May 2025

(INCORPORATION) RULES, 2014

FOR RELIABLE SOURCE AND SOLUTIONS INDIA LLP

- Aakash Kumar (Designated Partner)
- Sourabh Tiwari (Designated Partner)
- Pawan Kumar (Partner)

AGARWAL DUPLEX BOARD MILLS LIMITED
 CIN: L99999DL1984PLC019052
 Regd. Office: 217, Agarwal Prestige Mall, Plot No. 2 Community Center, Along Road No. 44, Pitampura, Delhi - 110034
 Board: +91 11 47527700 | Fax: +91 11 47527777 | E-mail: agarwalduplex1984@gmail.com
 Website: www.agarwalduplex.net


AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31st MARCH, 2025

(Rs. In Lakhs)

Sl. No.	Particulars	(STANDALONE)				
		31-Mar-25 3 months (Audited)	31-Dec-24 3 months (Unaudited)	31-Mar-24 3 months (Audited)	31-Mar-25 12 months (Audited)	31-Mar-24 12 months (Audited)
1	Total Income from Operations	5118.44	5677.22	4444.01	20904.53	16862.33
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax & Exceptional)	-2.24	36.33	-11.02	44.93	2.64
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	-2.24	36.33	-11.02	44.93	2.64
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	-16.4	27.07	-22.31	18.9	-12.38
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2.57	27.07	-5.38	37.86	4.55
6	Equity Share Capital	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) (Year ended figures)	-	-	-	1675.71	1637.84
8	Earnings Per Share (of Rs. 1/- each)					
1. Basic:		-0.02	0.02	-0.02	0.01	-0.01
2. Diluted:		-0.02	0.02	-0.02	0.01	-0.01

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly & yearly Audited Financial Result for the Financial year ended 31.03.2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly & yearly Audited Financial Results are available on Stock Exchange websites (www.mseil.in) and on the company's website-www.agarwalduplex.net. The same can also be accessed by scanning the below QR code.
- The above results were reviewed and recommended by the audit committee and taken on record by the Board of Director at its meeting held on 30/05/2025 and the Statutory Auditor have conducted the audit of the financial statements and have expressed an unmodified report on these financial results.



Agarwal Duplex Board Mills Limited
 Sd/-
 Neeraj Goel
 Managing Director
 DIN: 00017498

Place : Delhi
Date : 30/05/2025

NEERAJ PAPER MARKETING LIMITED
 CIN: L74899DL1995PLC066194
 Regd. Office: 218-222, Agarwal Prestige Mall, PLOT NO. 2, Community Center, Along Road No. 44, Pitampura, Delhi - 110034
 Board: +91 11 47527700; Fax: +91 11 47527777; E-mail: cs@neerajpaper.com; Website: www.neerajpaper.com


AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31/03/2025

(Rs. In Lakhs)

Sl. No.	Particulars	(STANDALONE)				
		31-Mar-25 3 months (Audited)	31-Dec-24 3 months (Unaudited)	31-Mar-24 3 months (Audited)	31-Mar-25 12 months (Audited)	31-Mar-24 12 months (Audited)
1	Total Income from Operations	4,319.84	5,376.73	4,090.55	19,686.63	15,839.03
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax & Exceptional)	-6.46	6.25	18.14	43	79.59
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	-6.46	6.25	18.14	43	79.59
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	-11.90	5.32	11.04	24.66	57.02
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-18.79	5.32	1.26	17.77	47.24
6	Equity Share Capital	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) (Year ended figures)	-	-	-	1675.87	1658.09
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)					
1. Basic:		-0.11	0.05	0.10	0.22	0.52
2. Diluted:		-0.11	0.05	0.10	0.22	0.52


Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly & Yearly Audited Financial Result filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly & yearly Audited Financial Results are available on Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and on the company's website-www.neerajpaper.com. The same can also be accessed by scanning the below QR code.
- The above results were reviewed and recommended by the audit committee and taken on record by the Board of Director at its meeting held on 30/05/2025 and the Statutory Auditor have conducted the audit of the financial statements and have expressed an unmodified report on these financial results.



Neeraj Paper Marketing Limited
 Sd/-
 DEEPAK GOEL
 WHOLE TIME DIRECTOR
 DIN: 00200527

Place : Delhi
Date : 30/05/2025



PHOENIX INTERNATIONAL LIMITED
 CIN : L74899DL1987PLC030092
 Regd. Off.: 3rd Floor, Gopala Tower, 25, Rajendra Place, New Delhi - 110008
 EXTRACT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31.03.2025

(Rs. In Lacs)

Particulars	3 months ended 31.03.2025	Corresponding 3 months ended 31.12.2024	Corresponding 3 months ended in the previous year 31.03.2024	Year Ended 31.03.2025	Year Ended 31.03.2024
Total income from operations (net)	634.84	621.14	681.01	2,447.29	2,778.78
Net Profit / (Loss) on ordinary activities after tax	(24.21)	73.99	96.12	157.33	238.48
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(32.90)	73.99	87.69	150.99	227.56
Equity Share Capital	1678.96	1678.96	1678.96	1678.96	1678.96
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-	-	-
Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10 /- each) Basic & Diluted	(0.20)	0.44	0.52	0.90	1.36
Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs.10 /- each) Basic & Diluted	(0.20)	0.44	0.52	0.90	1.36


Notes:

- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 30.05.2025.

2. Key Standalone Financial Information:

Particulars	3 months ended 31.03.2025	Corresponding 3 months ended 31.12.2024	Corresponding 3 months ended in the previous year 31.03.2024	Year Ended 31.03.2025	Year Ended 31.03.2024
Total income from operations (net)	634.37	621.14	679.57	2,446.83	2,777.34
Profit / (Loss) before tax	97.75	105.76	155.07	387.52	358.82
Net Profit / (Loss) for the period after tax	(32.58)	73.99	111.25	170.20	254.26
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(38.91)	73.99	94.62	163.87	243.34
Equity Share Capital	1,678.96	1,678.96	1,678.96	1,678.96	1,678.96
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-	-	-
Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs.10 /- each) Basic & Diluted	(0.23)	0.44	0.56	0.98	1.45
Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs.10 /- each) Basic & Diluted	(0.23)	0.44	0.56	0.98	1.45

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com) and Comapny's Website www.phoenixindia.com.



For Phoenix International Limited
 Sd/-
 Narender Kumar Makkar
 Director & Company Secretary
 DIN: 00026857

Place: New Delhi
Date: 30.05.2025

SHAKUMBHRI PULP & PAPER MILLS LIMITED
 CIN: L21012UP1986PLC007671
 Regd. Office: 4.5 KM, BHOPA RAOD, MUZAFFARNAGAR -251001, UTTAR PRADESH
 Ph. No.-7895512368, E-mail: shakumbhri@yahoo.com, shakumbhripaper@gmail.com, website: shakumbhripulp.com


AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED AS ON 31ST MARCH 2025

(Rs. In Lacs)

Sl. No.	Particulars	(STANDALONE)				
		31-Mar-25 3 months (Audited)	31-Dec-24 3 months (Unaudited)	31-Mar-24 3 months (Audited)	31-Mar-25 12 months (Audited)	31-Mar-24 12 months (Audited)
1	Total Income from Operations	2,206.47	2,252.71	2,197.82	8,618.84	7,710.46
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax & Exceptional)	5.15	7.25	168.42	18.34	-74.30
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	5.15	7.25	168.42	18.34	-74.30
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	15.40	3.99	118.40	21.39	-62.30
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	13.86	3.99	118.31	19.37	(60.70)
6	Equity Share Capital	385.50	385.50	385.50	385.50	385.50
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	771.43	752.06
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)					
1. Basic:		0.40	0.10	3.07	0.55	-1.62
2. Diluted:		0.40	0.10	3.07	0.55	-1.62

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly and yearly Audited Financial Result filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Unaudited Financial Results are available on website of the company 'www.shakumbhripulp.com'. Full results can also be accessed by scanning the QR code mentioned below.
- The above results were reviewed and recommended by the audit committee and taken on record by the Board of Director at its meeting held on 30.05.2025 and same has been audited by the Company's Statutory Auditors.



SHAKUMBHRI PULP & PAPER MILLS LIMITED
 Sd/-
 Girish Kumar Agarwal
 Whole Time Director
 DIN:06457199

Place : Muzaffarnagar
Date : 30-05-2025

"FORM NO. INC-26"

(PURSUANT TO RULE 30 OF THE COMPANIES (INCORPORATION) RULES, 2014)

BEFORE THE HON'BLE REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, DELHI

IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013 UNDER SECTION 12 & 13(1) & (4) AND RULE 30 OF THE COMPANIES (INCORPORATION) RULES, 2014

IN THE MATTER OF **LXT AI INDIA PRIVATE LIMITED** HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT F-12, THIRD FLOOR, JAGATPURI, PARWANA ROAD, SHAHDARA, DELHI-110051, INDIA.

Notice is hereby given to the General Public that **LXT AI INDIA PRIVATE LIMITED** ("the Applicant Company") proposes to make application to the Central Government (Regional Director) under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of Alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extra-ordinary general meeting held on 21st May, 2025 to enable the Company to change its Registered Office from the "National Capital Territory of Delhi" to "State of Telangana".

Any person whose interests likely to be affected by the proposed change of the Registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Aiyangaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteendays from the date of publication of this notice with a copy to the Applicant Company at its registered office at the address mentioned below: F-12, THIRD FLOOR, JAGATPURI, PARWANA ROAD, SHAHDARA, DELHI-110051, INDIA.

For and on behalf of **LXT AI INDIA PRIVATE LIMITED**

Sd/-
Shaikh Imran
Additional Director
DIN : 10633861

Date : 30.05.2025
Place : Hyderabad

R/o : Plot No.150, H. No.9-32/3/a, Ravindra Nagar, St. No. 8, Habsiguda, Hyderabad, Telangana, 500007

INTEC CAPITAL LTD.
 Regd. Office: 708 Manjusha 57 Nehru Place New Delhi - 110019

REDEMPTION NOTICE

Notice Under Section 13 (8) of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 ("SARFAESI Act, 2002) read with Rule 9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules").

INTEC/OP/2025/01 20/05/2025

- Rekhha Control Systems And Projects (Borrower)**
Registered Office at/ Residing at: 1/4225, Ram Nagar Extn, Shahdara, Delhi, New Delhi-110032.
- Seedram Dhondiba Bhosale (Guarantor)**
Registered Office at/ Residing at: 56, J & K Block, Laxmi Nagar, Delhi, New Delhi-110092
- Ashwini Seedram Dhondiba Bhosale (Guarantor/ Mortgagor)**
Registered Office at/ Residing at: 56, J & K Block, Laxmi Nagar, Delhi, New Delhi-110092

Re: Rekha Control Systems And Projects

We, refer to various facilities, extended to and availed of by Rekha Control Systems And Projects ("Borrower/Guarantor"), from time to time, interalia, from Intec Capital Limited Bank/FI. The Borrower has also executed various loan and security documents in favour of Intec Capital Limited undertaking to repay the financial assistance granted to the Borrower on the terms and conditions stated therein. To secure the said facilities, the Borrower and Mortgagors mortgaged and hypothecated various securities.

Despite repeated requests, the Borrower defaulted in repayment of the loan amount and notice under Section 13 (2) of the SARFAESI Act, 2002 was issued by Intec Capital Limited on 04.05.2020 calling upon the Borrower and you the Addressees to repay the outstanding dues as mentioned therein.

This is to inform you that as all the requisitions under the provisions of SARFAESI Act, 2002 and the Rules made thereunder have been complied with.

In view thereof, your attention is invited to the provisions of sub-section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, 2002 read with Rule 9(1) of the Rules made thereunder, in respect of time available, to redeem the mortgaged/ secured assets. Please note, Intec Capital Limited shall proceed to sell the mortgaged assets at any time after expiry of 30 days from the date of this notice.

Yours faithfully,

Authorised Officer

LS INDUSTRIES LIMITED
 CIN : L51505HP1993PLC031724
 Registered Office : Village-Bairsen, P.O.-Manjholi, Tehsil-Nalagarh, Solan, Himachal Pradesh-174101, India
 Email Id : lsindustries93@gmail.com | Website: www.lsindustrieslimited.com

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH, 2025

(Rs. In Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2025	Quarter Ended March 31, 2024
1	Total Income From Operations	104.816	150.689	57.492
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(258.574)	(2556.935)	(304.420)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(258.574)	(2228.779)	(304.

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated April 22, 2025 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the Main Board of BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE").

GACM TECHNOLOGIES LIMITED

Our Company was originally incorporated on 28th April, 1995 under the provisions of the Companies Act, 1956, in the name and style of "Brilliant Securities Limited" vide certificate of Incorporation dated 28th April, 1995 issued by Registrar of Company, Andhra Pradesh. Thereafter, name of the Company was changed from "Brilliant Securities Limited" to "Stampeeda Capital Limited" vide fresh Certificate of Incorporation dated 19th July, 2011 issued by Registrar of Companies, Andhra Pradesh. Later, the name of the Company was further changed from "Stampeeda Capital Limited" to "GACM Technologies Limited" vide fresh Certificate of Incorporation dated 4th May, 2023 issued by Registrar of Companies, Hyderabad.

Corporate Identification Number: L67120TG1995PLC020170
Registered Office: Kura Towers, 10th Floor, D. No.1-11-25&41-11-255 S.P.Road, Begumpet, Hyderabad, Hyderabad, Telangana, India, 500016
Contact Details: +91 040-69086900 / 84
Contact Person: Sujata Suresh Jain, Company Secretary & Compliance Officer,
Email-ID cs@gacmtech.com **Website:** <http://gacmtech.com/>

OUR PROMOTER ARE J VENKATA TIRUPATI RAO AND GAYI ADI HOLDINGS PRIVATE LIMITED FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

THE ISSUE

RIGHTS ISSUE OF UP TO 42,32,83,900 *FULLY PAID UP EQUITY SHARES AND 7,35,26,112 EQ- DVR OF FACE VALUE OF ₹1/- (RUPEE ONEONLY) ('EQUITY SHARES') EACH AT A PRICE OF ₹1/- (RUPEES ONE ONLY) PER EQUITY SHARE AND ₹1/- (RUPEES ONE ONLY) PER EQ-DVR SHARES PER EQUITY SHAREAND EQ- DVR SHARES) ('ISSUE PRICE') ('RIGHT SHARES') FOR AN AMOUNT AGGREGATING UP TO ₹49,69,10,012 (RUPEES FORTY NINE CRORE SIXTY EIGHT LAKHS TEN THOUSAND TWELVE ONLY) ON A RIGHTS ISSUE BASIS TO THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF GACM TECHNOLOGIES LIMITED ('COMPANY' OR 'ISSUER') IN THE RATIO OF 51 RIGHTS SHARES FOR EVERY 82 EQUITY SHARES AND 82 EQ- DVR SHARESHELD BY SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE, MONDAY, APRIL 28, 2025 ('ISSUE'). . FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE SECTION TITLED 'TERMS OF THE ISSUE' BEGINNING ON PAGE 205 OF THIS LETTER OF OFFER. THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE OF THE COMPANY IS BOMBAY STOCK EXCHANGE

NOTICE TO THE READER ("NOTICE") - ADDENDUM TO LETTER OF OFFER DATED APRIL 22, 2025

This notice should be read in conjunction with the LOF filed by the Company with the Stock Exchanges and the ALOF and Application Form that have been sent to the Eligible Equity and EQ- DVR Shareholders of the Company. The Eligible Equity and EQ- DVR Shareholders of the Company are requested to please note the following:

This is to inform to the Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Tuesday, May 06, 2025 and was scheduled to close on Monday, June 02, 2025, has now been extended to Wednesday, June 4, 2025, by the Rights Issue Committee in its meeting held on Friday, May 30, 2025 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue. Accordingly, the last date of submission of the duly filled in Application Form (along with the amount payable on application) is Wednesday, June 4, 2025. Equity and EQ- DVR Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closure Date as Wednesday, June 4, 2025.

REVISED ISSUE SCHEDULE	Issue Opening Date	Tuesday, May 06, 2025
	Issue Closing Date	Wednesday, June 04, 2025

*Our Board may, however, decide to further extend the Issue Period as it may determine from time to time but not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (Inclusive of the Issue Opening Date).

**Investors are advised to ensure that the Application Forms are submitted on or before the Issue Closing Date. Our Company, and/or the Registrar to the Issue will not be liable for any loss on account of non-submission of Application Forms or on before the Issue Closing Date. #Eligible Equity and EQ- DVR Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee(s)on or prior to the Issue Closing Date.

This addendum shall be available on the respective websites of our Company at : <https://www.gacmtech.com> ; the Registrar to the Issue at www.vccipl.com ; and the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Accordingly, there is no change in the LOF and ALOF dated April 22, 2025 and Application Form except for modification in the last date of Issue Closing date. Change in Issue closing date resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THE LETTER OF OFFER, ABRIDGED LETTER OF OFFER, APPLICATION FORM SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THIS ADDENDUM.

All capitalised terms hold reference to the Letter of Offer filed by our Company.

GACM Technologies Limited
Sd/-
Sujata Suresh Jain
Company Secretary & Compliance Officer

Date: May 30, 2025
Place: Hyderabad

Disclaimer: Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares and EQ-DVR on a rights basis and has filed a Letter of Offer with the BSE Limited and NSE Limited The Draft Letter of Offer is available on the website of Stock Exchanges where the Equity Shares and EQ- DVR are listed i.e. BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com, Our Company at <https://www.gacmtech.com>, and the Registrar to the Issue at www.vccipl.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 24 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

फॉर्म संख्या INC-26

[कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए विज्ञापन

केन्द्र सरकार के समक्ष, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए) के मागमें में

और
 शिक गैस लुधियाना प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय मुद्रित नंबर 305, तृतीय तल, वर्ल्डमार्क-2, एसेंट 8 होस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट, एरोसीटी, एम्पूब-8, आईजीआई एम्पूरोट, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110037 पर स्थित है।

आवेदक आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी 07.05.2025 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के एसओएसएन के धारण में परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "राजस्थान राज्य" में ले जा सके।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह निदेशक शिखरपाल फॉर्म दाखिल करके एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर जमा कर सकता है या अपने हितों की प्रकृति और विषय के आधार बताते हुए एक हलफनामे के साथ अपनी आपत्तियों को पंजीकृत डाक से क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर बी-2 विम, द्वितीय तल, पश्चिम दीनदयाल अंबेदेकर मार्ग, सीपीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 के पते पर भेज सकता है तथा इसकी एक प्रती आवेदक कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में नीचे उल्लिखित धा पर भेजनी होगी:

शिक गैस लुधियाना प्राइवेट लिमिटेड
 पता: मुद्रित नंबर 305, तृतीय तल वर्ल्डमार्क-2, एसेंट 8 होस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट, एरोसीटी, एम्पूब-8, आईजीआई एम्पूरोट, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110037
 शिक गैस लुधियाना प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दिनांक: 31.05.2025 ननु निबद्ध स्थान: नई दिल्ली (कंपनी सचिव)
 सदस्यता संख्या: A68617

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

प्रिसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड				
पंजीकृत कार्यालय: सी-1081, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली -110025 सीआईएन : L32104DL1979PLC099590, वेबसाइट: www.pel-india.in				
31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (स्टैंडअलोन) का सारांश				
क्र. सं.	विवरणों	30.09.2024 को समाप्त तिमाही अलेखापरीक्षित	31.03.2024 को समाप्त तिमाही लेखापरीक्षित	31.03.2025 को समाप्त वर्ष लेखापरीक्षित
1	प्रचालन से कुल आय (शुद्ध)	1,825	1,399	4,746
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर से पहले, अपवादनामक और / या असाधारण आइटम)	375	171	19
3	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (अपवादनामक और / या असाधारण आइटम के बाद,)	375	171	19
4	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (अपवादनामक और / या असाधारण आइटम के बाद,)	252	155	(58)
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय / (अवधि (कर के बाद) के लिए संयुक्त लाभ / (हानि) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	244	157	(6)
6	प्रत्यक्ष इक्विटी शेयर पुंजी	1,385	1,385	1,385
	असाधारण वस्तुएं के बाद प्रति शेयर आय (इंपीएस) (प्रत्येक 10 रुपये की)			
	(वार्षिक नतीजा)			
	बेसिक	1.62	1.12	(0.42)
	दिल्यूटेड	1.62	1.12	(0.42)

टिप्पणियाँ:

- उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता सचिव और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टैंड एकएसएन में दाखिल तिमाही और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के परिणामों के विस्तृत प्राकृत का एक अंश है। स्टैंडअलोन तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्राकृत कंपनी की वेबसाइट www.pel-india.in और स्टैंड एकएसएन की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।
- विस्तृत वित्तीय परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और 30 मई, 2025 को आयोजित कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित किया गया है।
- 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के आंकड़े पूरे वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखा परीक्षित आंकड़ों और संबंधित वित्तीय वर्ष की तैत्सीरी तिमाही तक प्रकाशित वर्ष-दर-वर्ष के आंकड़ों के बीच संतुलन के आंकड़े हैं।
- ये परिणाम कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के तहत निर्धारित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (इंड एएस) और लागू सीमा तक अन्य मंच्यता प्राप्त लेखांकन प्रथाओं और नीतियों के अनुसार तैयार किए गए हैं। 1 अप्रैल, 2017 से कंपनी ने पहली बार 1 अप्रैल, 2016 की संक्रमण तिथि के साथ इंड एएस को अपनाया है। यह संक्रमण कंपनी (लेखा) नियम 2014 (भारतीय जीएएस) के नियम 7 के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों से किया गया है।

बोर्ड की ओर से
 प्रिसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए
 हस्ता /—
 निखिल कनीयार
 प्रबंध निदेशक
 सीआईएन: 03058495

लीड फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड				
पंजीकृत कार्यालय : 101, सीता राव मैन्सन, 718/21, जोशी मार्ग, कोरले बाग, नई दिल्ली- 110005 सीआईएन : L74140DL1993PLC053485 वेबसाइट : www.leadfinancialservices.in , ईमेल आईडी : lead_financial@rediffmail.com 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण (रु. लाख में, यदि अन्यथा उल्लेखित न हो)				
क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)	31.12.2024 (अनुमोदित)	31.03.2024 (लेखापरीक्षित)
1.	प्रचालन से कुल आय	15.89	16.22	15.96
2.	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर तथा अपवादनामक मदों से पूर्व)	7.49	9.82	9.66
3.	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (समायोजित मदों के बाद)	7.49	9.82	9.66
4.	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवादनामक मदों के उपरांत)	1.41	7.28	7.10
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट)	1.01	6.38	7.16
6.	प्रत्यक्ष समता अंश पुंजी (रु. 10/- प्रत्येक का अधिक मूल्य)	330.20	330.50	330.50
7.	अन्य समताएं	-	-	-
8.	आय प्रति अंश (रु. 10/- प्रत्येक का) (अवशिष्टीकृत)	0.34	0.22	0.22
	दिल्यूटेड :	0.34	0.22	0.22

टिप्पणी: 1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता सचिव और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 (संशोधन) के नियम 33 के अंतर्गत स्टैंड एकएसएन में दाखिल तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत अंकन का एक अंश है। वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण अंकन, स्टैंड एकएसएन की वेबसाइट www.bseindia.com - www.cse-india.com पर तथा कंपनी की वेबसाइट www.leadfinancialservices.in पर उपलब्ध है।

सीड भाइयोरिटीज सर्विसेस लिमिटेड के निदेशक मंडल हेतु तथा उनकी ओर से हस्ता /—(पंजीयन विभाग)
 स्थान : नई दिल्ली
 दिनांक : 30 मई 2025

CAN FIN HOMES LTD.

CIN: L85110KA1987PLC008699; केनरा बैंक के ऊपर,
 प्रथम तल, फ्लॉट नं सी-3, सैक्टर-1, नोएडा पिनकोड-201301

ई-मेल : noida@canfinhomes.com फोन: 0120-2870106 / 65 / 67 मोबाइल: 7625079126

कब्जा सूचना [नियम 8(1)] [अवल संपत्तियों के लिए]

प्रकटि: अखोहराहल्ली ने केन फिन होम्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रभुत्वों हित प्रदान अधिनियम, 2002 के अधीन तथा उक्त अधिनियम और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना निम्नलिखित शक्तियों को जारी की थी निम्न निर्माणाखित कर्जदार(री) / सह-कर्जदारों / गारंटरों से सूचना में वर्णित बकाया राशि तथा अंतिम भुगतान की तिथि तक सविधानमक दर पर व्याज का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार तथा गारंटर उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्वारा कर्जदारों को विशेष रूप से और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अखोहराहल्ली ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ नीचे प्रत्येक कर्जदार के समक्ष वर्णित संश्लित का कब्जा इसमें आगे वर्णित शक्तियों को प्राप्त कर लिया है।

क्र. सं.	कर्जदारों तथा गारंटर्स का नाम	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जा की तिथि
1.	श्री राम कुमार शाहशंकर पुत्र मणि लाल शाहशंकर, श्रीमती राज कुमारी शाहशंकर पुत्री राम कुमार शाहशंकर और (गारंटर) श्री बलवीर सिंह पुत्र प्रेम सिंह	फ्लैट नंबर एस-1, दूसरी मंजिल, बिना छत के, फ्लैट नंबर - 109,110, बाहरा नंबर 572, विष्णु एक्सप्रेस, हदबल गांव - आसना, परगना - आसना, तहसील - गाजियाबाद, जिला - गाजियाबाद 201013 पर निर्मित। फ्लॉट नंबर 109 की सीमाएं:	19.03.2025	रु. 15,12,171 /— (रुपए पन्ध्र लाख बाहर हज़ार एक सौ इकहत्तर मात्र) तथा उस पर व्याज	30.05.2025
		पूर्व फ्लॉट नंबर 110, पश्चिम: फ्लॉट नंबर 108, उत्तर: दीनार मलिक भूमि, दक्षिण: 20 फीट चौड़ी सड़क फ्लॉट नंबर 110 की सीमाएं:			
		पूर्व: फ्लॉट नंबर 111, पश्चिम: फ्लॉट नंबर 109 उत्तर: दीनार मलिक भूमि, दक्षिण: 20 फीट चौड़ी सड़क			
2.	श्रीमती रांमि रानी पुत्री निचय रंजन कुमार सिंह श्री निचय रंजन कुमार सिंह पुत्र हित बदी नारायण सिंह और (गारंटर) सीनोय कुमार सिंह पुत्र लाल बाबू	फ्लैट नंबर एस-1, दूसरी मंजिल, छत के साथ बंध और, एमआईजी टाइट, फ्लॉट नंबर बी-1/147, श्रीएलएफ दिलशावर एक्सटेंशन-2, गांव बड़ापुर उपर्यं भीमपुर, परगना सोनी तहसील और गाजियाबाद (पूर्व) सीमाएं: पूर्व: फ्लॉट नंबर बी-1/146, पश्चिम: फ्लॉट नंबर बी-1/148, उत्तर: 30 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण: अन्य भूमि	15.03.2025	रु. 9,67,386 /— (रुपए नौ लाख नवसठ हजार तीन सौ छियासी मात्र) तथा उस पर व्याज।	30.05.2025

कर्जदार का ध्यान, प्रस्तामृत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्राधान्य की ओर आकृष्ट किया जाता है। विशेष रूप से कर्जदार को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संयोज्यहार नहीं करने हेतु साधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संयोज्यहार सीएफएचएल की प्रत्येक संपत्ति के सामने वर्णित बकाया राशि और उस पर पूर्ण भुगतान तक आगे व्याज के प्रभारधारी होगा।

तिथि : 30.05.2025, स्थान : नोएडा

हस्ता /—, प्राधिकृत अधिकारी, केन फिन होम्स लिमिटेड

SANGAL PAPERS LIMITED (CIN- L21015UP1980PLC005138)

REGD. OFFICE: VILL BHAINSA, 22KM STONE, MEERUT-MAWANA ROAD, MAWANA, UP-250 401
 Website: www.sangalpapers.com, E-mail: accounts@sangalpapers.com, Tel: 01233-274324

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2025 (₹ In Lac except EPS)

Sl. No.	Particulars	3 Months Ended 31.03.2025 (Audited)	3 Months Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Corresponding 3 Months Ended 31.03.2024 (Audited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)	Year Ended 31.03.2025 (Audited)
1.	Total Income from Operations	4,702.16	3,976.46	4,915.69	19,133.03	18,090.74
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and /or Extraordinary items)	63.20	8.36	135.61	346.82	400.08
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	63.20	8.36	135.61	346.82	400.08
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	42.93	16.94	86.18	247.07	282.57
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	43.77	14.86	86.19	242.35	278.68
6.	Equity Share Capital (Face value of Rs 10/- each)	130.73	130.73	130.73	130.73	130.73
7.	Other equity (Reserves excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				3,976.30	4,254.98
8.	Earnings perequity share (face value of ₹ 10/- each) (not annualised)					
	(a) Basic: (in Rs.)	3.28	1.30	6.59	18.90	21.62
	(b) Diluted: (in Rs.)	3.28	1.30	6.59	18.90	21.62

NOTES:-

1. These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013. 2. The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2025 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2025 are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on the Company's website www.sangalpapers.com. The same can be accessed by scanning the QR Code provided below.



For and on behalf of the Board of Directors of Sangal Papers Limited
 Sd/-
 Himanshu Sangal
 (Managing Director)
 (DIN- 00091324)

Place : Mawana
 Dated : May 30, 2025

AMIN TANNERY LIMITED					
CIN No.U19115UP2013PLC055834					
Regd. Office: 15/288 C, Civil Lines, Kanpur - 208 001 (U.P);					
Ph. No.: +91 512 2304077, Email: share@amintannery.in , Web: www.amintannery.in					
STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025					
(Rs. in Lakhs)					
Sl. No.	Particulars	Three Months ended 31.03.2025 (Audited)	Three Months ended 31.12.2024 (Unaudited)	Three Months ended 31.03.2024 (Audited)	Year ended 31.03.2025 (Audited)
1.	Total Income from Operations	966.53	1,193.68	1,173.78	4,163.73
2.	Net Profit before Interest, depreciation, exceptional items and tax	78.34	59.45	61.90	267.86
3.	Net Profit for the period before tax (before Exceptional and Extraordinary items)	13.44	7.99	16.15	38.94
4.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary items)	13.44	7.99	16.15	38.94
5.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	10.60	6.12	12.44	29.10
6.	Total Comprehensive Income for the period.	11.17	9.08	13.56	31.41
7.	Equity Share Capital (Face value of ₹1/- per share)	1,079.73	1,079.73	1,079.73	1,079.73
8.	Basic and Diluted Earnings Per Share(of ₹ 1/-each) (Not Annualized)				
i	Before Extraordinary Items (in ₹)	0.01	0.01	0.01	0.03
ii	After Extraordinary Items (in ₹)				

Note : The above is an extract of the detailed format of audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of